



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1984/चैत्र 10, 1906

No. 148]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1984/CHAITRA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984

का. आ. 225(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 :—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 752(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./77, तारीख 4 नवम्बर, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स सोमासुन्दरम् स्पिनिंग मिल्स, मधु-नेन्दल, रामनाथपुरम् जिला, तमिलनाडु नाम सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 4 नवम्बर, 1977 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और तमिलनाडु वस्त्र निगम को उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 778(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./82, तारीख 3 नवम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 3 मई, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 350(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 2 मई, 1983 द्वारा, उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 697(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83 तारीख 29 सितम्बर, 1983 द्वारा, उक्त आदेश की अवधि 31 मार्च, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है, कि उक्त आदेश, 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश 30 सितम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं. 3(14)/77-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1984

S.O. 225(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. No. 752(E)|18AA|IDRA|77, dated the 4th November, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Somasundaram Super Spinning Mills, Muthanendal, Ramanathapuram District, Tamil Nadu, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 4th November, 1977, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 778(E)|18AA|IDRA|82, dated the 3rd November, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of 3rd May, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 350(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd May, 1983, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. No. 697(E)|18AA|IDRA|83 dated the 29th September, 1983, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st March, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th September, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1984.

[F. No. 3(14)|77-CUS

A. P. SARWAN, Jt. Sec